



प्रेस नोट थाना हसनपुर

दिनांक 26.06.2021

दिनांक 07.06.21 को प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मनोटा में चोरी की घटना का सफल अनावरण

02 शातिर चोर मय चोरी की 02 बैट्री व अवैध असलहों सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्रीमती श्रेष्ठा ठाकुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा प्रथमा बैंक ग्राम मनोटा में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 02 अभियुक्त मय चोरी की 02 बैट्री व अवैध असलहों सहित गिरफ्तार किये गये ।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2021 को वादी दिनेश कुमार शाखा प्रबन्धक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा मनोटा द्वारा थाना हसनपुर पर सूचना दी गई कि किन्ही अज्ञात चोरों ने कूमल लगाकर बैंक शाखा में लगे 08 बैटरे तथा 1 स्टेपलाइजर चोरी कर लिये है । शाखा का अन्य सभी सामान सुरक्षित है । उक्त घटना व वादी की तहरीर पर थाना हसनपुर पर मु0अ0सं0 246/2021 धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था । बैंक में चोरी की घटना की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे ।

उक्त चोरी की घटना का खुलासा करते हुए थाना हसनपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कल रात्रि 09.40 बजे धीमरखेडा रोड पर पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे मोटर साइकिल पर सवार 02 अभियुक्त 1. शिवचरन पुत्र मुनेश व 2. विजय सैनी पुत्र शीशराम निवासीगण ग्राम धौरिया थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 बैट्री AMARON QUANTA, एक-एक तमंचा व दो-दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर मु0अ0सं0 284/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम शिवचरन व मु0अ0सं0 285/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम विजय सैनी उपरोक्त पंजीकृत किया गया । मोटर साइकिल हीरो HF डीलक्स-DL3S CS5535 के कोई कागजात नहीं दिखा सके तो धारा 207Mv Act में सीज किया गया ।



पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमने 18-19 दिन पहले मनोटा बैंक के बराबर में खाली पडी जगह से दीवार में कूमल लगाकर बैंक के अन्दर से 08 बैटरे व 01 स्टेपलाइजर चोरी किये थे जिनमें से 06 बैटरे व स्टेपलाइजर हम दोनों ने फेरी करने वाले कबाडी को बेच दिये थे जिसके 08 हजार रुपये मिले थे, पैसे हमने बराबर बांट लिये थे जोकि खर्च हो गये और आज हम शेष दोनो बैटरी को बेचने की फिराक में गजरौला की तरफ जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवचरन शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर जनपद हापुड में पशु चोरी करने, थाना गजरौला पर ट्रैक्टर चोरी करने, मारपीट करने व अवैध शराब से सम्बन्धित करीब आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शिवचरन पुत्र मुनेश निवासी ग्राम धौरिया थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. विजय सैनी पुत्र शीशराम निवासी ग्राम धौरिया थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. चोरी की 02 बैटरी एमरान कवांटा AMARON QUANTA ।
2. 02 तमंचा 315 बोर मय 04 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
3. मोटर साइकिल हीरो HF डीलक्स-DL3S CS5535 ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवचरन:-

1. मु0अ0सं0 566/2010 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
2. म0अ0सं0 466/2011 धारा 379,411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 44/2012 धारा 379,411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 304/2019 धारा 323,504,506 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 285/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. मु0अ0सं0 246/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
7. मु0अ0सं0 284/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विजय:-

1. मु0अ0सं0 246/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 285/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

अभियुक्तगण के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्रपाल शर्मा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. का0 91 कुलदीप सैनी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. का0 1015 कपिल पंवार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।